



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 फाल्गुन 1945 (श10)
(सं0 पटना 295) पटना, मंगलवार, 19 मार्च 2024

सं० 08/आरोप-01-09/2021 सा0प्र0-639
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

10 जनवरी 2024

अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के पत्रांक 184/गो0 दिनांक 09.07.2021 द्वारा बालू के अवैध खनन, भंडारण, परिवहन एवं इसमें सम्मिलित व्यक्तियों से संबंधित जांच प्रतिवेदन गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के पत्रांक 3966 दिनांक 09.07.2021 द्वारा प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन में श्री सुनील कुमार सिंह, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-789/2019 अनुमंडल पदाधिकारी, डेहरी, रोहतास के विरुद्ध अवैध बालू उत्खनन में दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, अवैध बालू उत्खनन/परिवहन में संलग्न लोगो की मदद पहुँचाये जाने आदि की पुष्टि सी0डी0आर0 विश्लेषण एवं आसूचना संकलन के माध्यम से हुई।

उक्त प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7654 दिनांक 27.07.2021 द्वारा श्री सिंह को निलंबित किया गया। श्री सिंह के विरुद्ध वैध आय से अधिक परिसम्पत्ति अर्जित करने के आरोप में आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या-12/2021 दिनांक 11.08.2021 दर्ज है।

अवैध बालू उत्खनन में दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, अवैध बालू उत्खनन/परिवहन में संलग्न लोगों को मदद पहुँचाये जाने आदि से संबंधित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7958 दिनांक 02.08.2021 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन सम्प्रति अप्राप्त है।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह के मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री सिंह के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही एवं न्यायिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सम्यक समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह को निलंबन से मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णय के आलोक में श्री सुनील कुमार सिंह, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-789/2019 अनुमंडल पदाधिकारी, डेहरी, रोहतास सम्प्रति निलंबित को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त किया जाता है। श्री सिंह के निलंबन अवधि के सेवा का निरूपण तथा वेतन-भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में समीक्षोपरांत निर्णय विभागीय कार्यवाही के अंतिम निष्पादन के बाद ली जायेगी।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 295-571+10-डी०टी०पी०
Website: <http://egazette.bih.nic.in>